

May 31, 2021

DCS-CRD

**BSE Limited** 

First Floor, New Trade Wing

Rotunda Building,

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street, Fort, Mumbai 400 023

Stock Code: 533229

Listing Compliance

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, 'G' Block

Bandra- Kurla Complex

Bandra East, Mumbai 400 051

Stock Code: BAJAJCON

Dear Sir/Madam,

Sub: News Paper Publication – Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations)

Pursuant to the Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of newspaper advertisement published in Economic Times (English) and Jai Rajasthan (Hindi) regarding completion of e mailing of Annual report 2020-21 to the members of the Company as well as e-voting information for 15<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company, in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations.

The above information is also available on the website of the Company at www.bajajconsumercare.com.

The same may please be taken on record and suitably disseminated to all concerned.

Thanking you,

Yours Sincerely,

For Bajaj Consumer Care Limited

Chandresh Chhaya Company Secretary

Membership No.: FCS 4813

Encl: as above



NOT ON SAME PAGE Companies, industry bodies from both sides point towards widely

Spat RO.DT:28.05.2021,W:8.00,H:28.00

# **Labour-Intensive Exports Lost** Market Share in 2015-19: FIEO

Study comes as India aims to clock \$400 billion of merchandise exports in FY22

Kirtika. Suneja @timesgroup.com

New Delhi: India's labour-intensive exports such as leather, gar--ments, gems & jewellery and car-Epets lost market share globally in the calendar years 2015-19 even as Eexports of raw material and se-Emi-finished products like metals □ and chemicals exceeded global Eimports growth in the five-year period, a study done by the Fede-Eration of Indian Export Organisations (FIEO) showed.

Global gems and jewellery im- to\$290.6 ports rose 5% in 2015-19 but Indi-→ ±a's exports contracted 2% while woven garments imports grew 3% though India's exports shrank 3% during the period.

As per the study pharmaceuticals and marine are the sunrise ≕sectors where exports have done ω = exceptionally well but their po-"tential has not yet been unfolded" → ¬while medical and surgical equip-= ment, electrics and electronics, dajiry, and sports goods and toys have

∃medical devices, pharmaceuti-Ecals and electronics are getting a -push through the production-linked incentive scheme but there is materials have pushed the do-

sectors that needs to be addressed,"said Ajay Sahai, director ge-

neral, FIEO. The study comes at a time when India aims to clock \$400 billion of merchandise exports in FY22. India's goods exports in FY21 contracted 7.3% on-year to \$290.6billion.

India's goods exports in FY 21 fell 7.3% on-year

Raising the issue of buoyancy in exports on account of exports of raw material or semi-finished goods, the study showed that the growth in exports of raw material and semi-finished pro-

ducts outstripped global imports growth in 2015-19. Global unwrought aluminium

imports surged at a compound annual growthrate(CAGR)of5% during 2015-19 whereas India's exports surged 31 %. Similarly, ferro alloys global imports rose 10% while India's exports clocked a CAGRof 15% during the same pe-"performed exceedingly well". riod. Iron and steel, plastic poly-"Most of these sectors such as mers and unwrought lead have riod. Iron and steel, plastic polyexhibited a similar pattern.

"Many of the exporters have pointed out that exports of these Ea challenge of capacity in a few mestic prices while, at the same

Winner sectors covered in PLI. CANBOOST jewellery, carpet, leather

toys winner

Raw material

exports surge fast

sunrise sectors with

high export potential

their exports," FIEO said. The apex body of exporters sought the supply of such material to value added manufacturing companies and encouragement to the resultant products manufacturers to set up manufactu- according to the study ring base so as to start exporting value added products.

which are covered under the PLI the medium to long term," it said. scheme, could witness capacity expansion and some of them can be classified as "winner sectors" ports grew 8% while global imand their sheer market size offers ports rose 7%.

time, helping our competitors in a potential for a quick rise in exports.

**EXPORTS BY** 

\$100

billion

Global pharma imports rose at a 7% CAGR during 2015-19, while India's exports grew 6%. However, India's export share in global pharma imports is less than 3%,

"If we want to be the Pharmacy of the World', we should look at FIEO said certain sectors, increasing our share to 10% in Another high potential sector is marine wherein India's ex-

# Economy Added 16.9 Lakh Less Jobs in FY21: SBI Research

Mumbai: Net job creation in the economy fell by 16.9 Elakh in FY21 over the previous fiscal, shows an SBIResearch analysis of EPFO payroll data. However, the N FY21 numbers are better than the FY20 net job creation, which had declined by 28.9 lakh, further cementing the view that the economy is not creating new

employment opportunities.
The latest EPFO data shows that net new EPF subscribers stood at 94.5 lakh in FY21, and NPS added 5.82 lakh, taking the cumulative net addition to 100.4 lakh, ∴which is marginally down from 102.3 lakh in FY20.

However, according to Soumya Kanti Ghosh, SBI's group chief economic adviser, "this does not repre-Sentthe correct picture as the data include the number of exited members who re-joined and re-subscribed, =and thus not fresh ob creation."

EPFO data shows that net new EPF subscribers -stood at 94.5

-lakh in FY21,

added

-5.82 lakh

"An estimate of the actual net new payroll (first job) adjusted for re-joined/resubscribed members and formalization (based on ECR data), shows the actual net new payroll is only 44 lakh is FY21, which is 16.9 lakh less than the net new payroll generated in FY20, when the new payroll declined by almost 28.9 lakh," he said. Ghosh also said most of the 44 lakh additions are low quality jobs.

The second job (or the exited members who re-joined and re-subscribed) rose

by 17.9 lakh in FY 21. However, the number of new members who joined declined by 6.9 lakh in FY21 compared to an increase of 1.5 lakh in FY20. This indicates that lower number of peo-

ω\_ple exited from job market in search for better/new jobs (which was obviously scarce during the pande-"mic-hit year). "A breakup of the 95.4 lakhs job created ω\_by the EPFO payrolls, 41.2 lakh were through second -jobs, 44 lakh through first jobs and 9.3 lakh were thro-=ugh formalization," hesaid. Ghosh added that the official numbers did not capture the 16.9 lakh decline in

First-time jobs in FY21, though the \_number of second time jobs or those members who rejoined the pay-⇔roll roseby 17.9lakh.

Even the rate of formalisation declined by 1.2 lakh. "Cumulativeω\_ily, total payroll generation of EP-FO and NPS was almost 19 lakh Eless than the previous fiscal," he Esays, adding in the private sector, most job losses were in smaller Ecompanies, —PTI

# <sub>∞</sub> Petition Against Twitter for 'Failing' to Comply with New IT Rules

Our Bureau

New Delhi: A petition has been filed in the Delhi High Court against Twitter Communication India Pvt Ltd and Twitter Inc, for failing to comply with India's new IT rules that came into effect from Wednesday.

The petitioner, Amit Acharya, said the Information Technoloωgy (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 came into force from 4 May 25 and Twitter had been given three months to comply with the rules but it had failed to =appoint a Resident Grievance Officer to redress user com--plaints regarding violation of Ethe provisions of the rules.

The petitioner said he wanted "register his complaint against some defamatory and -untrue tweets but could not find the redressal mechanism on its ∃site." The company "...not only Efailed to appoint Resident EGrievance Officer but has also Enot appointed Nodal officer and Echief Compliance Officer men-Etioned under Rule 4 of the IT ERules, 2021." The petition comes a day after Twitter and the government had a public faceoff over compliance with the IT

∴ The government has directed Twitter to comply, while the mi-=croblogging platform has sought three months to do so.

rules.

# **US Pips Mauritius as 2nd Largest** Source of FDI in 2020-21: DPIIT

New Delhi: The US replaced Mauritius as the second largest source of foreign direct investment into India during 2020-21 with inflows of \$13.82 billion, according to government data. Singapore remained the top source of foreign direct investment (FDI) into the country for the third consecutive fi-

During the last financial year, India attracted \$5.64 billion in FDI from Mauritius, according to the data by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT). The island country was followed by UAE (\$4.2 billion), Cayman Island (\$2.79 billion), Netherlands (\$2.78 billion), UK (\$2.04 billion), Japan (\$1.95 billion), sector(\$5billion).-PTI

Alnoor.Peermohamed @timesgroup.com

Bengaluru: Space technology startup Bel-

latrix Aerospace has successfully tested In-

dia's first privately developed hall-effect

thruster, an electric propulsion engine for

micro satellites weighing between 50-500

kg, which it says will be ready for commer-

The company said it has completed

ground tests for the new thruster in line

with Indian Space Research Organisation

(ISRO) and European Space Agency (ESA)

standardsat its lab at the Indian Institute of

cial use by the end of this year.



Tests New Hall-effect Thruster

Germany (\$667 million). and Cyprus (\$386 million). Overall foreign direct investments into the country grew 19% to \$59.64 billion during 2020-21 amid measures taken by the government for policy reforms, investmentfacilitation and ease of doing business.

Total FDI, including equity, re-invested earnings and capital, rose 10% to the highest-ever \$81.72 billion, against \$74.39 bill ion in 2019-20.

In 2020-21, the computer software and hardware sector attracted the highest inflows of \$26.14 billion. It was followed by construction - infrastructure activities (\$7.87 billion) and services

European company for the device to be fit-

years to develop this from scratch."

The Indian firms and even RBI have spoken about the conflict of interest situation in many com-

differing

4, Indian Auditors

VinodMahanta & Sachin Dave

Mumbai: The spat between the Big Four profes-

sional services firms and Indian auditors over

the new RBI guidelines for appointments of sta-

tutory auditors has turned nasty with both sides

accusing each other of serving self interest and

The guidelines for commercial banks, NBFCs

and Housing finance companies are to be imple-

The issue has further polarised the Big Four

and Indian audit firms and a study of the presen-

tations, FAQS and detailed impact notes being

shot off to the regulators, companies and indust-

ry associations from both sides point towards wi-

The Indian auditors say that joint audits will le-

ad to better audit quality due to two pairs of eyes

looking at numbers. "For last 3 decades, joint au-

dits have worked fine in all public sector banks,

insurance companies and PSUs. The PSUs are

subject to oversight of CAG too. So why are joint

audits a problem now?" asked Jeenendra Bhan-

dari, partner, BGB&CoLLP.But on-ground reali-

ty is different, say the Big Four auditors, the Indi-

an firms are just hankering for business since

they lost their most lucrative assignments du-

ring audit rotation. "Just look at the rising NPAs

in the public sector banks having multiple joint

auditors, increasing cases of divergences in ac-

counts and a jump in IBC cases. It clearly points

out that joint audits haven't really been effective

in raising audit quality," says a partner in a Big

Four affiliate. In most big joint audits, auditors

divide responsibilities and both firms look at dif-

ferent set of numbers as per the ICAI rules and

wherever Big Four firms—EY-Deloitte, PwC and

KPMG—are involved, they end up doing critical

parts of the audit as a safeguard and also take up

disproportionateliability. "In case of an auditfailure, the investor will sue a big firm or Ghanshy-

amDas & Co? We cannot take chances," said anot-

Then, the Indian auditors point at the concent-

ration risk of a Big Four butthedata support that

According to Prime database data, the Big Four

firms do less than 25% of the listed private banks

after rotation (Bandhan, AU Small Bank, CSB

Bank, DSB Bank and IDFC Bank). However, 75 In-

dian audit firms work with 141 isted public sector

banks (Big four don't audit PSU banks). Out of the

196 listed NBFCs and HFCs, the Big Four firms do

her partner in a Big four firm.

less than 22% of the total audits.

dely differing views on key contentious issues.

trying to mislead key stakeholders.

mented in the year 2021-22.

Turns Ugly

dit work with audit dients.

panies but Deloitte, PwC and Grant Thornton haveannounced that they won't globally do non au-

# by the Soviets in the 1970s and while they've Bellatrix Aerospace Successfully become a mainstay for satellite propulsion

weighing in excess of 2,000 kg.

over the years, the technology has tradi-

tionally been used only on large satellites

Bellatrix said its new thruster will provide a reliable propulsion solution to small satellite manufacturers, a market which is Science, Bengaluru. It is now readying to test its hall-effect thruster in space, for seen as booming after players like Starlink, which it has signed an agreement with a OneWeb and even Amazon have gotten into a race to create a web of satellites that can ted to a satellite which will be launched in beam Internet down to earth. Simultanethe coming months. "We have optimised ously there is also a growing opportunity this propulsion system to specifically cater for earth observation satellites, which sevto the microsatellite segment. There were a eral companies including giants like Airlot of challenges in scaling down the techbus are vying for The Bengaluru-based nology, both in the plasma physics and the company said its hall-effect thruster would thruster construction," said Rohan M Gaoffer far higher specific impulse (mileage) napathy, cofounder and CEO at Bellatrix and could double the service life of such sat-Aerospace. "It has taken us more than four ellites to 10 years. This could result in 3X

higher return on investment for satellite

# **bajaj** consumer i

Bajaj Consumer 🌠re Limited

Regd. Office : Old Sation Road, Sevashram Chouraha, Uda 💸 313 001, Rajasthan Phone: 0294-256 531-32 
Website: www.bajajconsumerca

Email: compliano officer@bajajconsumer.com NOTICE OF 15TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION 🛝 D BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 15th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, June 21, 2021 at 11.00 A.M. through Video Conferencing her Audio-Visual Means (OAVII) to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM. The Company has sent the notice of AGM along with Annual Report Notice International year 2020-21 on Friday, May 28, 2021, only through electronic mode to Member whose email re registered with the Company/Depositories in accordance with the Circular Nos 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and 3, 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs and croular Nos. CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 ated May

12, 202 and January 15, 2021, issued by the Securities and Exchange Board of In In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 (including any statutory modification(s), clarification(s), examption(s), re-enactment(s) or substitution(s) there of for the time being in force), Regulation 44 of Listing Regulations and Se Star dard on General Meetings, the Members are provided with the facility to cast their all the business items set forth in the Notice of AGM by electronic means from a place has the venue of the AGM ("remote e-voting") using an electronic voting system or by FINTECH The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares m in the paid-up equity share capital of the Company as on Monday, June 14, 2021

eir votes on all resolutions which is set out in the Notice of the AGM. Members have ption to cast their vote on any of the resolutions using the remote e-voting facility or e-vi uring the AGM. Detailed procedure for remote e-voting/e-voting during the AGM is provi n the Notice of the AGM. The remote e-voting period commences on Thursday, June 17, 2 t 9.00 A.M. (IST) and ends on Sunday, June 20, 2021 at 5.00 P.M. (IST). The remote e-vol nodule shall be disabled by KFINTECH thereafter. The Members who have cast their vo by remote e-voting on the resolutions prior to the AGM may attend/participate in the AC rough VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes on such resolutions again. Any persons holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acqui shares of the Company and becomes a member of the Company after sending of the Note and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login id and password for casti nis/her/its vote and for attending the AGM, by sending a request at e-voting@kfintech.com However, if he/she is already registered with KFINTECH for remote e-voting then he/she ca

e Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to

use his/her existing user id and password for casting the vote. Individual shareholders holding securities in electronic mode and who acquires shares of the Company and become a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-if date may follow steps mentioned in Notice of the AGM.

SEBI vide its circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 09, 2020 ha decided to enable e-voting for all individual demat account holders, by way of a single logi credential, through their demat accounts/websites of Depositories/Depository Participants Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the E-voting Service Providers, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

The Board of Directors have appointed Mr. Prasanjit Kumar Baul or failing him Mr. Hitest Gupta, Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process For details relating to remote e-voting, please refer to the notice of AGM. If you have an

queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of The Members are requested to read the instructions pertaining to remote e-voting as printed

the Notice of the AGM carefully. In case, members having any queries or issues or grievance regarding remote e-voting, they may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and voting user manual for Members, available at the downloads sections https://evoting.kfintech.com/ or write an email/contact the following: Ms. C. Shobha Anand

Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032

KFin Technologies Private Limited,

Email:einward.ris@kfintech.com Phone: 1800 309 4001 (Toll free)

Secretarial Department Bajaj Consumer Care Limited

117, 11th Floor, Bajaj Bhawan, Jamnalal Bajaj Marg. 226, Nariman Point, Mumbai - 400 021 Email:sethu@bajajconsumer.com Phone:022-22049056/58/8633

pdesk for individual shareholders holding securities in demat mode for any ted es related to login through Depositories i.e. NSDL and CDSL.

Please contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@ns or call at Toll Free No. 18001020990 and 1800224430 Seculties held Please contact CDSL helpdesk by sending a request at

The documents pertaining to the items of the business to be transacted in the GM are availate for inspection at the website of the Company at www.bajajconsumerca to the date of the 15th AGM of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Ruy 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 2 of Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer book of the Company will remain closed from Tuesday, June 15, 2021 to Monday, June 21, 2021 (both of ye inclusive) for the purp use of 15th AGM of the Company and payment of Final Divide that may be

The Notice, unual Report 2020-21 and other relevant details are evallable on the Company's we sale at www.bajajconsumercare.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of RTA KTA Technologies at https://evoling.kfin.ech.com.

Date : 28.05.2 21 Place : Mumbar

For Bajaj Consufer Care Limited nandresh Chhaya Company Secretary Compliance Officer Mentership No. FCS 4813 **bajaj** group

# Funding a **Powerful Future**





Extract of Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the year ended 31-03-2021

Hall-effect thrusters were first developed markets according to its estimates.

(₹ in Crores)

5

\_\_\_\_\_\_

-40

-4

 $-\omega$ 

-0

0

	Particulars	Standalone					Consolidated				
SI.		Quarter Ended			Year Ended		Quarter Ended			Year ended	
No.		31-03-2021 (Audited)	31-12-2020 (Unaudited)	the same of the sa	31-03-2021 (Audited)	31-03-2020 (Audited)		31-12-2020 (Unaudited)	31-03-2020 (Audited)	31-03-2021 (Audited)	31-03-2020 (Audited)
1,	Total Income from Operations	9,145.61	9,042.13	7,721.43	35,387.89	29,765.21	9,211.46	9,084.57	7,723.51	35,552.68	29,903.93
2.	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional items)	2,695.77	2,810.05	698.23	10,756.13	6,983.29	2,704.38	2,806.99	664.23	10,779.59	7,029.98
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items)	2,695.77	2,810.05	698.23	10,756.13	6,983.29	2,704.38	2,806.99	664.23	10,779.59	7,029.98
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items)	2,069.63	2,262.93	435.71	8,361.78	4,886.16	2,077.84	2,257.96	473.99	8,378.24	4,972.27
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,072.24	2,444.81	(92.52)	8,818.30	4,336.37	2,080.38	2,441.15	(55.06)	8,836.00	4,418.42
6.	Equity Share Capital (Face Value ₹ 10 per share)	1,974.92	1,974.92	1,974.92	1,974.92	1,974.92	1,974.92	1,974.92	1,974.92	1,974.92	1,974.92
7.	Other Equity (as per audited balance sheet as at 31st March)				40,893.05	33,101.64				41,230.61	33,421.51
8.	Earnings per Share (of ₹10 each)(for continuing and discontinued operations) (in ₹)										
	Basic	10.48	11.46	2.21	42.34	24.74	10.53	11.44	2.40	42.42	25.18
	Diluted	10.48	11.46	2.21	42.34	24.74	10.53	11.44	2.40	42.42	25.18

Notes:

Place: New Delhi

1. The above financial results of the Company were reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at the meetings held on 28th May, 2021. These results have been audited by the Statutory Auditors of the Company.

ICC PSE Excellence Award for Corporate Governance

12

13

14

15

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nse-india.com) and also at the Company's website (www.recindia.nic.in).

Exchange4Media Best Organization for Women Empowerment

23

24

For REC Limited Sanjay Malhotra, IAS

Chairman & Managing Director DIN - 00992744

Date: 28th May 2021 SKOCH Award (Gold) for Response to Covid NSE Market Achiever Award Recipient of Swachh Bharat Puraskar

19

20

21

Core-4, SCOPE Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-43091500 CIN: L40101DL1969GOI005095, Web.: www.recindia.nic.in

18

16

17

28

Scan this QR code to download the Audited Financial Results for FY21

30

REC Limited (A Government of India Enterprise)

Follow us on: (f)(2)(0)(10)(2) @reclindia

27

29

# आज का चित्र तो ग़ालिब

#### आदित्येन्द्र की पुण्यतिथि पर कांग्रेस मीडिया दी श्रद्धांजलि

उससे गले मिलते या

उदयपर. 28 मई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्व अध्यक्ष मा. आदित्येन्द्र की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को आशीर्वाद नगर स्थित परमश्री निवास पर मीडिया सेन्टर पदाधिकारियों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजिल अर्पित की। पुष्पांजिल अर्पित करने वालों में कांग्रेस मीडिया सेन्टर अध्यक्ष पंकज कुमार शर्मा, चेतन सेन, विकास मीणा, कुम्भाराम चैधरी, अंकित

#### haiai consumer care

110co - Old Station Road, Sevashram Chouraha, Udalpur 313 001, Rajasthan 1294-2561631-32 ■ Website: www.bajajconsumercare.com

NOTICE OF 15TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURI

NOTAGE 515H ANNUAL GENERAL VERING EVOING NEGRATION NAD BOOK CLOSEVE MICE is being by mit that the 15th Annual General Mediag (AGM) of the Company Will be had on Monday, June 21, 2021 at 11,000 AM. Brough Video Conferencing Officer Audio-Visual Means (OAM) to transact the Ordinary and Special Business, as of our in the Notal Visual Means (OAM) to transact the Ordinary and Special Business, as of our in the Notal Visual Mean (OAM) at the Company has sent the notice of AGM atony with Annual Report for financial year of AGM atony (AGM) and the AGM at the Company has sent the notice of AGM atony with Agm (AGM) and AGM at the AGM (AGM) and AGM

hin the paid-tip-equity sheer copality of the Company as on Monday, Junn 14, 2021 °CC.

In order to the company is not should be company to the Company as on Monday, Junn 14, 2021 °CC.

In order votes on all resolutions which is set out in the Notice of the AGM. Members have the onto cast their vote on any of the resolutions using hie renote - voting dulling re-back like provided in the Notice of the AGM. Members have the onto cast their vote on any of the resolutions using hie renote - voting dulling the AGM is provided to the AGM of the AGM o

nail:sethu@bajajconsumer.com Phone:022-22049056/58/86 k for individual shareholders holding securities in demat mo ilated to login through Depositories i.e. NSDL and CDSL.

cgin Type Helpdesk Details
Securities held Please contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@radi.co.
Securities held Please contact CDSL helpdesk by sending a request at evoting@radi.co.
Securities held Please contact CDSL helpdesk by sending a request at evoting@radi.co.

he documents pertaining to the items of the business to the transacted in the AGM an validable for impection at the website of the Company at www.bajajconsumercare.com. The Company of the Company at www.bajajconsumercare.com. The Company of the Company at well and the Company of the Comp

Chandresh Chhaya Company Secretary & Compliance Office Membership No. FCS 4813

bajaj GROUP

# कोविड-१९ जनजागरूकता वेबीनार में चिकित्सा जगत के विशेषज्ञों ने स्काउट गाइड को कोरोना के लक्षण. उपचार एव बचाव की दी जानकारी

कोरोना हारेगा हम जीतेंगे- जे.सी महान्ति स्टेट चीफ किमश्नर स्काउट राजस्थान

उदयपुर, 28 मई। कोराना हारेगा हम जीतेंगे। अवसर था राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मण्डल मुख्यालय ,एवं मोहनलाल सुखाडिया युनिवर्सिटी,उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में विडियों कांफ्रेस के माध्यम से आयोजित वर्चुअल वेबिनार में कोविड-19 के दौरान राजस्थान सरकार की गाइड लाईन एवं जिला प्रधासन के आदेष निर्देषों की पालना सुनिष्चित करते हुए प्रषंसनीय सेवाएं दे रहे प्रदेश एवं संभाग के भारत स्काउट गाइड संगठन,चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों स्काउट गाइड कोरोना वारियर्स की सखाडिया यनिवर्सिटी के ऑनलाईन वर्चअल वेबिनार में घिरकत कर रहे उच्चाधिकारियों एवं स्काउट गाइड कोरोना वारियम् को बतौर अध्यक्षीय पद से संबोधित करते हुऐ जे.सी मोहन्ति स्टेट चीफ कमिश्नर स्काउट राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर राजस्थान ने कहे।

. मोहन्ति ने इस अवसर पर प्रदश एवं उदयपर संभाग के स्काउट गाइड संगठन. शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा महकमे के पदाधिकारियों एवं स्काउट गाइड कोरोना त्रारियर्स की कोविड-19 के दौरान प्रदान की जारही प्रषसंनीय सेवाओं की तारिफ करते हुऐ कहा कि प्रदेष एवं उदयपुर संभाग में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं चिकित्सा शिक्षा एवं स्काउट गाइड संगठन कहा कि सराहनीय सेवाओं के परिणाम स्वरूप ही उदयपुर संभाग मे कोरोना संक्रमण के के बढ़ते फैलाव पर काब पाया जाना संभव हुआ है। उन्होनें इस मौके पर प्रदश के अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, स्काउट गाइड की ओर से कोविड-19 के लक्षण,उपचार,बचाव विशय संदर्भ में आयोजित वर्चअल वेबिनार में उदयपर संभाग की इस वेबिनार को सर्वश्रेश्ठ वेबिनार का दर्जा देते हुऐ उदयपुर संभाग एवं जिले के प्रधासन,चिकित्सा विभाग,मोहनलाल सखाडिया यनिवर्सिटी की मक्तकंठ से तारिफ कर धन्यवाद दिया। , सेवाओं के जज्बे को सलाम -उन्होने

विशेषतौर पर आर एन टी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल डा.लाखन पोसवाल,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी. डा. दिनेष खराडी,आयुर्वेद विभाग के वरिश्ठ चिकित्सक डा बौभालाल औदिच्य राजस्थान विद्यापीठ होम्योपेथिक कॉलेज के प्रोफेसर अनन्त प्रकाश गुप्ता, योग प्रशिक्षक शुभा सुराणा को वेबिनार में कोविंड ओर चिकित्सा बचाव उपचार के संदर्भ में प्रस्तत सरोहनीय वार्ताओं तथा वेबिनार में षिरकत कर रहे प्रदेष.एवं उदयपर संभाग के कोरोना वारियर्स की षंकाओं के समाधान के लिए मक्त कंठ से तारीफ की।

## देश की तरक्की द्विगुणित करने में आधी आबादी का योगदान जरूरी : राकेश जैन सफलता आपके घर पर नहीं आएगी, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पडेगा, बीजेएस का गृहिणी से उद्यमी कैसे बने विषय पर वर्चुअल वर्कशॉप

उदयपुर 28 मई। सामाजिक संस्था भारतीय जैन संघटना राजस्थान द्वारा गहिणी से उद्यमी कैसे बने विषय पर शुक्रवार को वर्चुअल वर्कशॉप आयोजीत हुई जिसमें प्रख्यात बिजनेस गुरु और बीजेएस के बिजनेस डेवलपर्मेंट नेशनल हेड गर्केश जैन प्रखर मुख्य वक्ता के रूप में थे।

नमस्कार महामंत्र से प्रारंभ हए इस सेमिनार में बीजेएस राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार फत्तावत ने सभी प्रतिभागियों के स्वागत करते हुए कहा कि महिला संशक्तिकरण के उद्देश्य से ऐसा वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जिस समाज और देश की आधी आबादी पुरुषों

के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बहे उस देश और समाज का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। लगभग 400 महिलाओं की उपस्तिथि में मुख्य वक्ता राकेश जैन प्रखर ने अपने प्रजेंटेशन में बताया कि कोई भी काम की सफलता नारी शक्ति के सहयोग से द्विगुणित हो जाती है। देश की तरकों को बढ़ाने के लिए महिला शक्ति को आर्थिक विकास के कार्यों में शामिल करना होगा। व्यवसाय 2 तरह के होते है पहला कैपिटल बेस और दूसरा नॉलेज बेस। वर्तमान में व्यवसाय करने के लिए पूंजी की नहीं नॉलेज की जरूरत है।

आज के समय में लक्ष्मी भी वही जाती है

जहाँ सरस्वती होती है। सफल महिला उद्यमी की विशेषताएं निम्न होती है सनने की क्षमता नई चीजों को जानने की

संगतन के अधिकारियों स्काउट गाइड

उत्सुकता काम करने का जज्बा। सफल उद्यमी बनने के लिए व्यवसायी में निम्न आवश्यकताएं होती है-- हमे अपने कंफर्ट जोन से बाहर

आना पड़ेगा। - कुछ साल जम कर करे और फिर आराम से सफलता करे। जो सपने देखते है वही बड़ा कर

्. - अपने सपनो को बहानो से बडा

निर्धारित करें।

- रीम वर्क से काम करे।

राकेश जैन ने नए स्टार्ट अप के कुछ क्षेत्र बताए जिसमे महिलाएं काम कर सकती है के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन विजयलक्ष्मी गलुण्डिया ने मुख्य वक्ता का परिचय बीजेएस राजस्थान महामंत्री ने तथा आभार बीजेएस राजस्थान के हेड आतिश लोढा ने ज्ञापित किया। कार्यक्रम को सफल संपादित करने में संयोजक पष्पा गोखरू,उमा सराणा,अर्चना छाजेड, बेला चतर, चित्रा बागरेचा,

विजयलक्ष्मी गलुण्डिया में अहम योगदान - अपना लक्ष्य स्मार्ट तरीके से

# लडिकयां एवं महिलाएं माहवारी में स्वच्छता, खान-पान का रखे विशेष ध्यान : डॉ. गुनीत मौंगा

रोटरी क्लब उदयपुर मीरा का विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस पर वेबीनार

उदयपुर 28 मई। रोटरी क्लब वपर मीरा की ओर से शक्रवार को विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस पर वेबीनार का आयोजन किया गया। रोटरी मीरा अध्यक्ष त्रजयलक्ष्मी गर्लूडिया ने बताया कि यह बीनार मीरा गर्ल्स कॉलेज के संयक्त । ।वतधान में आयोजित हुआ जिसमें मख्य वक्ता डायनामिक योग सेन्टर की रेक्टर एवं डाइट एवं न्युट्रिशियन

एक्सपर्ट डॉ. गुनीत मौंगा ने बताया कि माहवारी एक बचपन से यवावस्था एवं युवाअस्था से मां बनने का सफर है इन दिनों लडकियों एवं महिलाओं को अपने खान-पान, शारीरिक स्वच्छता योग, प्राणायाम, पर्याप्त नींद आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए साथ ही उन्होनें बताया कि इन दिनों पेट दर्द, सरदर्द, चिडचिडापन, निम्न रक्तचाप, पेट फुलना, कब्ज आदि तकलीफे

हो सकती है। ऐसी स्थिति में खान-पान उचित होगा, योग प्राणायाम करेंगे, शारिरीक स्वच्छता पर ध्यान देंगे तो इन समस्याओं से निजात पा सकते है। साथ ही उन्होने बताया कि टीनऐज लडिकयों में माहवारी शुरू होने पर कई शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक बदलाव होते है तो अगर उन्हे जानकारी होगी तो वो उनका सामना कर

विशेषज्ञ ने बताया कि कैसे सेनेट्री पेड क इस्तमाल करना चाहिए और ज्याद रक्तस्त्राव, बच्चे दानी में गांठ आदि स्थिति में क्या डाक्टर्स की राय लेनी चाहिए।इस अवसर पर मीरा एल्यूमिनी की सेकेट्री मंजू बारुपाल, पर्व प्रिंसिपल नीधी श्रीवास्वत रोटरी मीरा क्लब की ढेनर मधु सरीन सीमा सिंह भाटी, एवं नींदेता जारोली भी

जनहीत में निगम ने की एक और पहल

# निगम ने उपलब्ध करवाए चिकित्सा विभाग को 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, वर्चुअल मीटिंग से जुड़े सभी पार्षद

# मरीजों को प्राण वायु उपलब्ध करवाने के लिए निगम का धन्यवाद : डॉ. सुमन

उदयपुर, 28 मई। कोरोना संक्रमण ऑक्सीजन मशीन की जरूरत को खते हुए नगर निगम द्वारा 20 ऑक्सीजन हंसंटेटर मशीन खरीद कर 10 महाराण<u>ा</u> चिकित्सालय एवं 5 मशीन सेक्टर 6 मेटेलाइट हॉस्पिटल में सहायतार्थ

लब्ध करवाई गई।

नगर निगम उपमहापोर पारस सिंघवी बताया कि शक्रवार को नगर निगम र्यालय में महापौर गोविंद सिंह टाक, गयक्त हिम्मत सिंह बारहठ ने 20 , स्सीजन कंसर्न कंसंट्रेट मशीन महाराणा भपाल चिकित्सालय अधीक्षक डॉ. आर . एल सुमन, रविंद्र नाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. लाखन पोसवाल एवं अंबामाता हॉस्पिटल के डॉ संपत कोठारी उपलब्ध करवाई। इस अवसर पर चारिक कार्यक्रम में महापौर टांक ने हहा कि नगर निगम द्वारा शहर के विकास लेकर कई कार्य किए जाते हैं। जनहित हार्य को लेकर उदयपर नगर निगम जस्थान में अपना अलग स्थान रखता है। होरोना की दसरी लहर ने मानव जीवन बहत नुकसान पहुंचाया है। अभी भी हुई मरीज प्रतिदिन इस महामारी से मंक्रमित हो रहे हैं। उच्च स्तरीय चिकित्सा विस्था होने के कारण संभाग भर के ारीज अपना इलाज करवाने उदयपुर आते हैं। इस विकट परिस्थिति में मरीजों को बसे पहले ऑक्सीजन की आवश्यकता हती हैं, इस हेतु नगर निगम ने 20 ऑक्सीजन कंसट्रेटर मशीन खरीद कर 10 महाराणा भपाल चिकित्सालय को. 5 बामाता चिकित्सालय एवं 5 मशीन एगमंगरी सेक्टर 6 सेटेलाइट हॉस्पिटल उपलब्ध करवाई हैं। इन मशीनों के ध्यम से कोरोना मरीज का इलाज तरंत रू किया जा सकेगा। उदयपुर शहर में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है लेकिन ारीजों को ऑक्सीजन देने के उपकरणों

की कमी हो रही थी इसी कारण नगर निगम

प्राण वायु उपलब्ध करवाने पर निगम

यह निर्णय लिया गया।

नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन हेतु महाराणा भुपाल चिकित्सालय अधीक्षक डॉ आर एल सुमन ने महापौर गोविंद सिंह टाक. आयक्त हिम्मत सिंह बारहट. उप महापौर पारस सिंघवी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा हर वक्त इस विकट परिस्थिति में चिकित्सा विभाग का साथ दिया है। चिकित्सालय को सेनिटाइज करना हो, परिसर में सफाई

नगर निगम उप महापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने कहा कि कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों में निगम शहरवासियों के साथ है। शहर में प्रतिदिन निगम कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु कई कार्यक्रम करवा रहा है। निगम द्वारा कोरोना संक्रमित मतक का सम्मानजनक अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शवों को हॉस्पिटल से मोक्ष धाम ले जाने हेतु निःशुल्क एंबुलेंस की व्यवस्था करवाई गई

## निगम हर कार्य में तत्पर : डॉ पोसवाल

स्था माकुल बनाना, रोगियों को भोजन उपलब्ध करवाने सहित कई कार्य नगर निगम द्वारा निष्पादित किए जा रहे है। नगर निगम द्वारा जो मशीन उपलब्ध कराई है वह चिकित्सा विभाग को काफी उपयोगी साबित होगी। कोरोना संक्रमित मरीज को समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है, इसके लिए यह उपयुक्त रहेगी। वजन में हल्की एवं आकार में छोटी होने के कारण इस मशीन को बहुत आसानी से एक स्थान से दुसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है।

इस अवसर पर आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. लाखन पोसवाल ने निगम का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि दूसरी लहर में हमें ऑक्सीजन की कमी तो नहीं रही लेकिन उपकरणों की कमी जरूर हुई। चिकित्सा विभाग को भविष्य में यह मशीन बहुत उपयोगी साबित होगी। अभी तक कोरोना का कहर थमा नहीं है इसलिए विभाग को उपकरणों से लैस होना होगा। नगर निगम द्वारा हमेशा चिकित्सा विभाग को जो मदद दी जाती है इस हेत संपर्ण चिकित्सा विभाग निगम का आभारी है। नगर निगम उप महापौर स्वयं अपनी देखरेख में चिकित्सालय परिसर में हर कार्य संपूर्ण करवाते हैं यह एक अनुठा उदाहरण है।

निगम शहरवासियों के साथ सरकारी चिकित्सालय ने बनाई अलग है. निगम के कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना हर समय मोक्ष धाम में अपनी सेवा दे रहे हैं। प्रतिदिन शहर में सैनिटरीज का छिड़काव किया जा रहा है. 40 ओटो में ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा जन जागरण करते हुए प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में निशुल्क मास्क वितरित किए ज रहे हैं, यही नहीं नगर निगम द्वारा कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे इस हेतु प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भोजन पैकेट भी घर घर वितरित किए जा रहे हैं। इस महामारी में नगर निगम की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहने दी जाएगी। सिंघवी ने चिकित्सा विभाग की प्रशंशा

करते हुए कहा की उदयपुर के सरकारी चिकित्सालयो ने अपनी अलग पहचान बनाई है। हॉस्पिटल में चिकित्सकों द्वारा किसी भी मरीज को भर्ती करने से मना नहीं किया, जिस परिस्थिति में मरीज चिकित्सालय में पहंचा उस परिस्थित में अच्छे से अच्छा उपचार उसको उपलब्ध करवाया गया। प्रतिदिन पत्र-पत्रिकाओं में अन्य शहरों की चिकित्सालय में हो रही व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ने को मिलता था, लेकिन उदयपुर शहर के चिकित्सालय

की व्यवस्था काबिले तारीफ है। निगम ने निभाई अपनी जिम्मेदारी - आयुक्त

नगर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहठ ने कहा कि नगर निगम ने राज्य

गई हर जिम्मेदारी का एवं निर्देशों का पालन किया है। शहरवासियों को सभी माकल व्यवस्थाएं निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। नगर निगम एवं चिकित्सा विभाग कोरोना महामारी को काबू करने में पूरी तरह से प्रयत्न शील है। शहर में सरकारी निर्देशों की पालना नहीं करने वाले लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए चालान भी बनाए जा

बहुत पहले दिया था ऑर्डर

नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक के निर्देश पर इन मशीनों का ऑर्डर बहत पहले दिया जा चका था लेकिन बाजार में उपलब्ध नहीं होने के कारण यह मशीनें देरी से प्राप्त हुई है। शुक्रवार को सभी मशीन चिकित्सा विभाग को उपलब्ध करवाई गई।

वर्चुअल मीटिंग से जुड़े सभी पार्घद

. नगर निगम उप महापौर एवं स्वास्थ समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने बताया कि इस दौरान आयोजित किए गए औपचारिक कार्यक्रम से नगर निगम के सभी पार्षदों को वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जोड़ा गया। सभी पार्षदों ने निगम के इस कार्य की सराहना की एवं निगम द्वारा लिए गए सभी जनहित के निर्णयों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आश्वस्त

महापौर, उपमहापौर ने की फिर से अपील

घर में रहें, स्वस्थ रहे। नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक, उप महापौर पारस सिंघवी ने उदयपुर शहर वासियों को फिर से मार्मिक अपील की है। उन्होंने कहा की यह विकट परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम सभी को स्वस्थ रहने के लिए अपने घर में ही रहना है। वर्तमान में संक्रमण कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है इसलिए छोटी सी लापरवाही भी भारी हो सकती है।

# चमकते सितारे

👌 👌 कर्म के पास न कागज़ है, न किताब है; लेकिन फिर भी. सारे जगत का हिसाब है दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते समद्र शमशान तृष्णा का गड्डा और मनुष्य का मन...!

#### टीकाकरण शिविर आयोजित

उदयपुर, 28 मई। वैश्विक महामारी कोरोना से समाजजन के बचाव हेतु आज दिनांक 28 मई 2021 शुक्रवार को ''युवा जाग्रति मंच पायडा'' एवं जिला चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले कोविड-19 वेक्सीनेशन के इच्छुक लोगों के लिए टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया।

आयड़ स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में आयोजित शिविर में प्रातः 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक टीकाकरण किया गया। कार्यक्रम में देवेन्द्र खांदेला. बनवारी लाल दवराय पुरुषोत्तम सोनार्थी, कन्हैया लाल खांदेला, नरेन्द्र सोनार्थी, किशन लाल वरी, सुनील पचलोड, राजकुमार दशोरा, चन्द्र प्रकाश परिहारा, दौलत खांदेला, नरेन्द्र होर, उमेश पिछोलिया, चन्द्र प्रकाश लडोती, लाला, महेन्द्र दवराया, रजनीश दवराया, सुशील वरनोती महेन्द्र खांदेला, विजय दवराया, राजू खांदेला, यशवंत खांदेला आदि 'युवा जागृति मंच सुन्दरवास - पायडा' के सदस्यों द्वारा शिविर के आयोजन में सहयोग किया गया।।

#### पथ विक्रेताओं को दे कोरोना राहत वृति : दीप्ति किरण माहेश्वरी

राजसमन्द, 28 मई। राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने जन जीवन पर व्यापक प्रभाव डाला है। तालाबंदी के कारण छोटा मोटा काम करने वाले हमारे बंधुओं की आर्थिक स्थिति बड़ी विकट हो गई है। किन्तु राजस्थान सरकार ने लघु व्यवसायियों एवं पथ विक्रेताओं को ग्रहत देने का कोई काम नहीं किया है।विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने मांग की है कि प्रदेश के सभी पथ विक्रेताओं और ठेला व्यवसायियों को राजस्थान सरकार 2000 की कोरोना राहत वृति तत्काल दें। सर्विधान में स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रदेश सरकारों का प्राथमिक एवं मुख्य दायित्व है।

#### 300 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर बैंक का उद्घाटन आज

उदयपुर 28 मई। आईआईएफएल फाउंडेशन और भारतीय जैन संघटना (बीजेएस) की ओर से 300 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर बैंक का उद्घाटन शनिवार 29 मई 2021 सुबह 11.30 बजे ऑनलाइन किया जाएगा। बीजेएस के राज्य अध्यक्ष राजकुमार फत्तावत व महासचिव अभिषेक संचेती ने बताया कि उदयपुर के माछला मगरा एकलिंग पार्क स्थित सामुदायिक भवन में होने वाले संक्षिप्त कार्यक्रम में शहर विधायक व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया तथा आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. लाखन पोसवाल उपस्थित रहेंगे।

## प्रदेश सरकार के शासन में अराजकता,छिन्न भिन्न कानून व्यवस्था,बढ़ते 🕂 महिला उत्पीड़न को लेकर महिला मोर्चा ने राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन

सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की की मांग

उदयपर 28 मई। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से जिला कलेक्टर श्री चेतन देवड़ा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित कर प्रदेश में छित्र-भिन्न कानून व्यवस्था, बढ़ते महिला उत्पीड़न एव दिनोदिन प्रदेश में बढ़ते अपराधों की रोकथाम में विफल गहलोत सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति महोदय से राष्ट्रपति शासन लगाने की अनशंसा करने की मांग की। भाजपा मीडिया संभाग प्रभारी चंचल कमार अग्रवाल ने जु.... नारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि राजस्थान प्रदेश में जहां स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गहमंत्री के दायित्व को संभाल रहे हैं वहां पर आम नागरिक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक . अधिकारी कोई भी सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था की पालना की कोई भी एजेंसी व्यवस्थित रूप से कार्य नहीं कर पा रही है। जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले आसमान छू रहे हैं ।हालात यह है कि प्रदेश में अपराध चरम पर है। हाल ही में राजधानी में गर्भवर्ती महिला को उठा ले जाकर जंगल में उसके साथ दष्कर्म की घटना सर्वविदित है। इसी प्रकार भीलवाड़ा में तहसीलदार एक महिला अधिकारी को भी कांग्रेस विधायक रामलाल जाट द्वारा कर्तव्य निर्वहन के दौरान प्रताड़ित करने की घटना सामने आई है। हाल ही में भरतपुर सांसद पर निरीक्षण के दौरान पत्थरों से हमला किया गया जो कि सीधा लोकतंत्र पर हमला है। लगता है प्रदेश में आम आदमी से लेकर जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी कोई भी सुरक्षित नहीं है।

#### भरतपुर सांसद रंजीता कोली के ऊपर हुए कातिलाना हमले की जांच कराने हेतु नेता प्रतिपक्ष की प्रतिक्रिया की विस्तृत जांच की मांग

जयपुर 28 मई।भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भरतपुर सांसद रंजीता कोली के ऊपर हुए कातिलाना हमले की विस्तृत जांच कराने की सरकार से मांग की है। श्री कटारिया ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सांसद रंजीता कोली पर हमला होना सबके लिए चिंता का विषय है। एक महिला सांसद पर एक सुनसान जगह जिस प्रकार से सड़क अवरुद्ध कर हमला किया गया बड़ा ही शर्मनाक एवं षड्यंत्र कारी कृत्य है ।श्री कटारिया ने कहा कि उन्होंने इस बाबत स्वयं सांसद से और भरतपुर आई जी से बात की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वे चाहते हैं कि इस घटना को सरकार और मुख्यमंत्री शर्मनाक घटना मानते हुए इसकी पूरी जांच कराएं. पता करें आखिर एक महिला सांसद जो हॉस्पिटलों को देखने जा रही थी

क्यो उस पर सुनसान रास्ते में गाड़ी आगे लगाकर रास्ता रोककर सोची समझी रणनीति स्वाईन से बचाव एवं उपचार के लिए तुरन्त असरकारक

# जागति फिवरिन काढा

के तहत हमला किया गया।

स्वाईनफ्लू, डेंगू एवं चिकनगुनिया और उससे उत्पन्न सर्वी, जुकाम, खांसी, बुखार, बदन दर्द इत्यादी में लाभग्रद, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।

JAGRITI FEVRIN KADA

# **Jyoti Stores**

(A Leading Merchant in Avarvedic medicines)

#### ज्योति स्टोर्स

Out side Delhi Gate UDAIPUR-313001 (Raj) अनुभवी चिकित्सा परामर्श भी उपलब्ध, फोन नं. : 2420016  $(\mathbf{S})$ 

Email: jagritiherbs@yahoo.co.in. Website: www. jagritiayurved.com

र्गालव : 126, एबीसी हिरण मगरी सेक्टर-11, चन्द्रर्ग उपवन, शाहीबाग के पीछे, उदयपुर 313002 से प्रकाशित नोवा प्रिंटर्स, 5 बागर गली, हाथीपोल से मुद्दित, आरएनआई नम्बर : 23554/72, डाक पंजीयन : RJ/UD/29-हेक्स : ( 0294 ) 2487066, 9928090996 ( मो. 9829044996 सम्पादक शैलेश व्यास )। e mail l.D. : jai.rajasthan@hotmail.com, jai.rajasthan72gmail.com